

Chapter – 12

गुणकारीवृक्ष

मौखिक – Oral

Q1. उदित के स्कूल के बगीचे में क्या खिले थे?

उत्तर. उदित के स्कूल के बगीचे में कई सुंदर- सुंदर फूल खिले थे।

Q2. उदित को फूल तोड़ने से किसने मना किया?

उत्तर. उदित को फूल तोड़ने से उसका अध्यापिका ने मना किया।

Q3. हमें फूल क्यों नहीं तोड़ने चाहिए?

उत्तर. फूल तोड़ने पर उन्हें भी दर्द होता है, इसलिए उन्हें नहीं तोड़ने चाहिए।

लिखित- Written(Answer the following questions)

Q1. पेड़- पौधे से हमें कौन- कौनसी वस्तुएँ प्राप्त होती हैं?

उत्तर. पेड़- पौधे से हमें फल, सब्जियाँ, अनाज, लकड़ी, दवाइयाँ और ईंधन जैसे कई वस्तुएँ प्राप्त होता हैं।

Q2. पेड़- पौधे कौन सी विषैली गैस ग्रहण करते हैं?

उत्तर. पेड़- पौधे कार्बन डाई ऑक्साइड नामक विषैली गैस ग्रहण करते हैं।

Q3. हमारे आस- पास की वायु को कौन शुद्ध करता है?

उत्तर. पेड़- पौधे हमारे आस- पास वायु को शुद्ध करते हैं।

Q4. प्रदूषण को किस प्रकार कम किया जा सकता है?

उत्तर. हर रोज़ एक पौधा लगा कर प्रदूषण को कम किया जा सकता है।

Q2. Choose the correct words and fill in the blanks:

1. आश्चर्य 2. शुद्ध 3. ऑक्सीजन 4. पेड़

Q3. Match the tree with their name – Assignment

Knowledge of grammar – व्याकरणज्ञान

Q1. Change into plurals of the given word:

फूल- फूलों लकड़ी- लकड़ियों

पेड़- पेड़ों सब्जी- सब्जियों

मित्र- मित्रों दवाई- दवाइयों

फल- फलों मिठाई- मिठाइयों

पौधा-पौधों लड़की- लड़कियों

Q2. X

Chapter- 13.

लालच की प्यास

मौखिक- Oral

Q1. यात्री को किस की आवाज़ सुनाई दी?

उत्तर.यात्री को पानी की कल- कल की आवाज़ सुनाई दी।

Q2. यात्री पत्तों से क्या बनाना चाहता था?

उत्तर.यात्री पत्तों से दोना बनाना चाहता था।

Q3. इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है?

उत्तर.इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए।

लिखित-Written (Answer the following questions)

Q1. यात्री के मन में क्या लालच आ गया?

उत्तर.यात्री के मन में पहले पीतल,फिर चाँदी और अंत में सोने का कटोरा पाने का लालच आ गया।

Q2. प्यास के मारे यात्री की हालत कैसी हो गई?

उत्तर.प्यास के कारण उसकी आँखों के आगे अँधेरा छा गया।

Q3. यात्री पानी क्यों नहीं पी सका ?

उत्तर.यात्री पानी नहीं पी सका क्योंकि वह नदी किनारे गिरकर बेहोश हो गयाऔर उसकी सोने का कटोरा छूट कर दूर जा गिरा।

Q4. नदी की देवी यात्री पर क्यों हंसने लगी ?

उत्तर.यात्री की हालत देखकर नदी की देवी यात्री पर हंसने लगी।

Q2. Put (✓) or (X) against the given sentences:

1. X 2. ✓ 3. X 4. ✓

Knowledge of grammar – व्याकरणज्ञान

Make words by adding ' ई ' suffix

दूर + ई = दूरी

लालच + ई = लालची

प्यास + ई = प्यासी

जंगल + ई = जंगली

खुश + ई = खुशी

हँस + ई = हँसी

Chapter –15

मोर

मौखिक-Oral

Q1. मोर कैसा होता है?

उत्तर.मोर अत्यंत सुंदर होता है।

Q2. मोर झूम- झूमकर कब आता है?

उत्तर.जब काले- काले बादल आते हैं।

Q3. मोर को क्या कहते हैं?

उत्तर.मोर को पक्षीराज कहते हैं।

लिखित- Written (Answer the following questions)

Q1. वर्षा का संदेश कौन लाते हैं?

उत्तर.वर्षा का संदेश मोर लाता है।

Q2. मोर के पंख कैसे होते हैं?

उत्तर.मोर के पंख रंग- बिरंगे होते हैं।

Q3. मोर ने अपने सिर पर क्या सजाया है?

उत्तर.मोर ने अपने सिर पर सुंदर ताज सजाया है।

Q4. मोर को पक्षीराज क्यों कहते हैं?

उत्तर.अत्यंत सुंदर पक्षी होने के कारण मोर को पक्षीराज कहते हैं।

Q2. Complete the lines of the poems: Assignment

Q3. Put (✓) or (X) against the given sentences:

1. X 2. ✓ 3. X 4. ✓
2.

Knowledge of grammar- व्याकरणज्ञान

Q1. Read, understand and write

- वर्षा हो रही है।
- मोर नाच रहा है।
- बादल गरज रहे हैं।
- बच्चे खेल रहे हैं।

Q2. Match the given words with their rhyming words:

- मोर - शोर
रंग - संग
ताज - बाज
वर्षा - हर्षा
रूप - धूप
न्यारा - प्यारा

Q3. Make words by joining letters: Assignment
